



Ref. No.: SIL/CHD/2023-24/07112023

Dated: 07-11-2023

The Manager
Listing Department
BSE Limited (BSE)
Corporate Relation Department,
Phiroze Jeejeebhoy Towers, 25TH Floor
Dalal Street, Mumbai-400001

The Manager,
Listing Department,
National Stock Exchange of India Ltd (NSE)
Exchange Plaza, C-1 Block G, Bandra Kurla
Complex, Bandra, Mumbai -400051

BSE Scrip Code: 526951

Trading Symbol: STYLAMIND

Sub: Publication of Unaudited Financial Results for the Quarter and half year ended September 30, 2023. & Record date for Interim Dividend

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Unaudited Financial Results (standalone and consolidated) for the quarter & half year ended September 30, 2023 & record date for Interim Dividend have been published by the company in the prescribed format in the Newspapers "The Business standard (English & Hindi)". The same has been made available on the company's website at www.stylam.com

You are requested to please take above information on your record

Thanking You,

For Stylam Industries Limited

Sanjeev
Kumar Sehgal

Digitally signed by
Sanjeev Kumar Sehgal
Date: 2023.11.07
17:27:03 +05'30'

Sanjeev Kumar Sehgal
Company Secretary and Compliance Officer

Stylam Industries Limited

Regd. Office: SCO 14, Sector 7C, Madhya Marg, Chandigarh (INDIA)-160019, **T:** +91-172-5021555/5021666, **F:** +91-172-5021495

Works I: Plot No. 192-193, Industrial Area Phase-1, Panchkula (Haryana) INDIA - 134109, **T:** +91-172-2563907/2565387

Works II: Village Manak Tabra towards Raipur Rani, Mattewala Chowk, Distt. Panchkula (Haryana)

W: www.stylam.com, **CIN:** L20211CH1991PLC011732 (Govt. of India recognised Star Export House)

Aadhar Housing Finance Ltd.
Corporate Office: Unit No. 802, Natraj Rustomjee, Western Express Highway and M.V. Road, Andheri (East), Mumbai - 400069.
Karnal Branch: 1st Floor, Sco No. 334, Mughal Canal, Karnal-132001, (Haryana).

APPENDIX IV POSSESSION NOTICE (for immovable property)

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of Aadhar Housing Finance Limited (AHFL) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, Demand Notices issued by the Authorised Officer of the company to the Borrower(s) / Guarantor(s) mentioned herein below to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower(s) / Guarantor(s) and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-Section (4) of the Section 13 of the said Act read with Rule 8 of the Security Interest Enforcement Rules, 2002. The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets. The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of AHFL for an amount as mentioned herein under with interest thereon.

Sr. No.	Name of the Borrower(s) / Co-Borrower(s) (Name of the Branch)	Description of Secured Asset (Immovable Property)	Demand Notice Date & Amount	Date of Possession
1	(Loan Code No. 3070000004/ Karnal Branch) Gulab Singh (Borrower), Kulvirinder Kaur (Co-Borrower), Deepak (Guarantors)	All that part & parcel of property bearing, Vassika No 1542 House No 369 VPO Ranwar Tehsil Karnal Distt Karnal Haryana, 132001. Boundaries: East- Gall, West- House Of Darbara Singh, North-Gall, South - House Of Sher Singh	11-07-2023 & ₹ 5,90,692/-	04-11-2023
2	(Loan Code No. 30700000134/ Karnal Branch) Ankit Kumar (Borrower), Prevesh Co-Borrower), Saptar (Guarantor)	All that part & parcel of property bearing, Khevat No 201 VPO Dridwara Salwan Fafdrana Road Near Lijivan Small Finance Bank, Jind, Haryana, 126129. Boundaries: East- Salwan Road, West- Property of Ankit, North- House Of Dhulla Ram, South -Lijivan Bank	18-07-2022 & ₹ 8,21,935/-	03-11-2023

Date: 07/11/2023
Authorized Officer
Aadhar Housing Finance Limited

POSSESSION NOTICE

EDELWEISS ASSET RECONSTRUCTION COMPANY LTD.
Retail Central & Regd. Office: Edelweiss House, Off CST Road, Kalina, Mumbai 400098
CIN: U67100MH2007PLC174759

Whereas, the Authorized Officer of the Secured Creditor mentioned herein, under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice under Section 13(2) of the said Act, as mentioned below calling upon the borrower(s) to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice. That the Assignor mentioned hereinbelow has assigned the financial assets to Edelweiss Asset Reconstruction Company Limited, acting in its capacity as trustee of various trusts mentioned hereunder (hereinafter referred as "EARC"), pursuant to the assignment under Section 5 of the SARFAESI Act, 2002. EARC has stepped into the shoes of the Assignor and all the rights, title and interests of Assignor along with underlying security interests, guarantees, pledges have been vested in EARC in respect of the financial assistance availed by the Borrower(s) and EARC exercises all its rights as the secured creditor.

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower(s) and the public in general that the undersigned being the Authorized Officer of Edelweiss Asset Reconstruction Company Limited (EARC) has taken possession of the mortgaged property(s) described herein below in exercise of the powers conferred under sub-section (4) of section 13 of the said Act read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on the respective date mentioned against each Loan Account/Mortgaged Property.

Sr. No.	Name of the Assignor	Name of Loan Account / Trust	Borrower Name & Co-Borrower(s) Name	Amount & Date of Demand Notice	Date of Possession	Possession Status	
1.	HDB Financial Services Limited	EARC TRUST SC-410	1. Mr. Amarjit Kumar (Borrower) & 2. Ms. Tulsi Ram (Co-Borrower)	Rs. 94,194,300/- (Rupees Ninety Four Thousand One Hundred Ninety Four and Paise Thirty only) on 12.10.2021	03-11-2023	Symbolic Possession	
2.	HDB Financial Services Limited	EARC TRUST SC-410	1. Mr. Arvind Kumar (Borrower) & 2. Ms. Divya (Co-Borrower)	Rs. 68,40,497.38/- (Rupees Sixty Eight Lakh Forty Thousand Four Hundred Ninety Seven and Paise Forty eight only) on 12.10.2021	04-11-2023	Symbolic Possession	
3.	Bajaj Finance Limited	EARC TRUST SC-422	448LAP162 & 448LAP165 & 35740	Chhotu Lal (Borrower) & Manjit Kaur (Co-Borrower) Rs. 45,01,53,316/- (Rupees Forty Five Lakh One Thousand Five Hundred Thirty One and Paise Thirty One only) on 08.08.2022	03-11-2023	Symbolic Possession	
4.	HDB Financial Services Limited	EARC TRUST SC-448	2596 & 221	Dharmender Confectionary and Confectionaries (Borrower), Dharmendra Kaur (Co-Borrower) & Sandeep Kumar (Co-Borrower), Lalwanti (Co-Borrower)	Rs. 20,60,93,833/- (Rupees Twenty Lakh Sixty Thousand Three Hundred Fifty Three and Paise Eighty Three only) on 12.04.2023	03-11-2023	Symbolic Possession
5.	Poonwalla & Fincoor Ltd	EARC TRUST SC-423	HL00371 & HL00055	Satish Kumar (Borrower) & Pawan Kumar (Co-Borrower) Rs. 38,18,994.88/- (Thirty nine lakhs eighteen thousand five hundred ninety four and eighty eight paise only) & 01.04.2023	04-11-2023	Symbolic Possession	
6.	SBCF Private Ltd	EARC TRUST SC-424	PR00654 & 071	VKL Handloom (Borrower), Vakil (Co-Borrower) & Firoz, SC (Co-Borrower) Rs. 11,21,04,77/- (Rupees Eleven Lakh Twenty One thousand Forty Four and seventy seven Paise Only) on 13.02.2023	03-11-2023	Symbolic Possession	

Date: 07/11/2023
Authorized Officer
Edelweiss Asset Reconstruction Company Limited

HSIIDC Launches No Litigation Policy-2023
For landowners of villages Kasan, Kukrola and Sehrawan in Tehsil Manesar, Distt. Gurugram

Haryana State Industrial & Infrastructure Development Corporation (HSIIDC), invites application under "No Litigation Policy-2023" notified on 28.07.2023 for the landowners in the revenue estates of villages Kasan, Kukrola and Sehrawan in Tehsil Manesar, Distt. Gurugram for the land notified for compulsory acquisition under Section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 on 10.01.2011 and Award of compensation under Section 9 of the Act for which was announced vide Award No. 1, 2 and 3 dated 16.08.2022.

The application under this policy shall be made within six months from the date of this advertisement. The landowner who are desirous to apply for plot allotment under the No litigation policy 2023 are advised to enquire and arrange the following mandatory documents before filing application to the HSIIDC, website: hsiidcsewa.org.in

(1) Parivar Pechan Patra (2) PAN card (3) Bank account No. (4) Email ID (5) Authorization letter in case of company/firm (6) In case of occupied residential house existing prior to 10.01.2011, property ID issued by Municipal Corporation, Manesar.

Interested stakeholders are required to apply only through application form on the website of HSIIDC i.e. hsiidcsewa.org.in within six months.

Last date for submitting application: 6th May 2024

In case of any clarification/ query please contact: Estate Manager, HSIIDC, IMT, NH-8, Opp. Petrol Pump, Sector 1, Manesar, Distt. Gurugram, Contact No. 0124-2291351.

CTP, HOD(IT), HSIIDC, Head Office, C-13-14, Sector-6, Panchkula, Contact No. 0172-2577710

Haryana State Industrial & Infrastructure Development Corporation Limited
Regd. Office: C-13 14, Sector-6, Panchkula, Ph. 0172-2590481-83, E-mail: contactus@hsiidc.org.in, Website: hsiidc.org.in,

JAMNA AUTO INDUSTRIES LIMITED
CIN: L35911HR1965PLC00485
Regd. Office: Jai Springs Road, Industrial Area, Yamuna Nagar - 135001, Haryana
Phone & Fax: 01732-251801/11/14. E-mail: investor.relations@jaigroup.com, Website: www.jaispring.com

STATEMENT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2023
(Rs. in Lakhs)

S. No.	Particulars	Quarter ended			Half year ended			Year ended
		Unaudited 30.09.2023	Unaudited 30.06.2023	Unaudited 30.09.2022	Unaudited 30.09.2023	Unaudited 30.09.2022	Audited 31.03.2023	
1	Total Income from operations	60,735.65	57,526.25	55,274.24	118,261.90	110,043.45	232,531.77	
2	Net Profit/ (Loss) for the period (before tax, exceptional items)	6,873.23	6,275.92	5,196.19	13,149.15	10,268.54	22,938.00	
3	Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after exceptional items)	6,873.23	6,275.92	5,196.19	13,149.15	10,268.54	22,938.00	
4	Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after exceptional items)	5,010.72	4,559.26	3,733.22	9,569.98	7,475.99	16,836.79	
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	4,918.73	4,563.87	3,678.40	9,482.60	7,436.85	16,865.13	
6	Equity Share Capital	3,966.93	3,966.93	3,984.84	3,966.93	3,983.84	3,986.93	
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)				79,583.69	68,033.90	74,440.41	
8	Earnings Per Share (of Rs. 1/- each) (not annualised) (In Rs.)							
	Basic:	1.26	1.14	0.94	2.40	1.88	4.23	
	Diluted:	1.25	1.14	0.93	2.39	1.87	4.21	

Notes:

- The above consolidated financial results of Jamna Auto Industries Limited (the parent Company) and its subsidiaries (together referred as "the Group") for the quarter and half year ended September 30, 2023 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on November 06, 2023.
- Information of standalone audited financial results in terms of the Listing Regulations is as under:

S. No.	Particulars	Quarter ended			Half year ended			Year ended
		Unaudited 30.09.2023	Unaudited 30.06.2023	Unaudited 30.09.2022	Unaudited 30.09.2023	Unaudited 30.09.2022	Audited 31.03.2023	
1	Revenue from operations	58,824.51	55,936.22	53,068.36	114,760.73	106,601.97	232,182.96	
2	Profit before tax	10,269.57	6,201.83	4,933.38	16,471.40	9,612.22	21,280.80	
3	Total Comprehensive income for the period	8,401.30	4,614.93	3,582.18	13,016.23	7,078.24	15,794.81	

The above is an extract of the detailed format of Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results are available on the Stock Exchanges websites viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com and website of the Company at www.jaispring.com

For Jamna Auto Industries Ltd
P. S. Jha
Managing Director & CEO
DIN 0074518

Date: November 06, 2023
Place: New Delhi

PARAS DEFENCE AND SPACE TECHNOLOGIES LIMITED
(CIN:L29253MH2009PLC193352)
Registered and Corporate Office: D-112, TTC Industrial Area, MIDC, Near, Nav Mumbai 400 706, Maharashtra, India. Tel: +91 22 6919 9999. Website: www.parasdefence.com

Extract of Statement of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter and Half Year ended September 30, 2023
(Rs. in Lakhs, except per equity share data)

Particulars	Standalone						Consolidated					
	Quarter Ended September 30, 2023	Quarter Ended June 30, 2023	Quarter Ended September 30, 2022	Half Year Ended September 30, 2023	Half Year Ended September 30, 2022	Year Ended March 31, 2023	Quarter Ended September 30, 2023	Quarter Ended June 30, 2023	Quarter Ended September 30, 2022	Half Year Ended September 30, 2023	Half Year Ended September 30, 2022	Year Ended March 31, 2023
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1 Total Income from Operations	6,107	4,570	5,988	10,677	9,812	22,281	6,241	4,926	5,673	11,167	9,845	23,065
2 Net Profit for the period (before tax and Exceptional Items)	1,355	817	1,254	2,172	2,261	4,672	1,217	763	1,163	2,000	2,100	4,685
3 Net Profit for the period (year before tax (after Exceptional Items))	1,355	817	1,254	2,172	2,261	4,672	1,217	763	1,163	2,000	2,100	4,685
4 Net Profit for the period (year after tax (after Exceptional Items))	1,010	620	903	1,630	1,656	3,593	876	581	813	1,457	1,494	3,595
5 Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the period (year after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)**	1,008	619	902	1,627	1,655	3,587	875	580	816	1,455	1,498	3,585
6 Equity Share Capital	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900
7 Other Equity (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet)						33,230						33,242
8 Earnings Per Share (of Rs.10/- each)												
a) Basic (Not Annualised)*	2.59*	1.59*	2.32*	4.18*	4.25*	9.21	2.42*	1.54*	2.17*	3.96*	3.99*	9.25
b) Diluted (Not Annualised)*	2.59*	1.59*	2.32*	4.18*	4.25*	9.21	2.42*	1.54*	2.17*	3.96*	3.99*	9.25

**Includes share of Non Controlling Interest

Notes:

- The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Result of the Quarter and Half Year ended September 30, 2023 filed with the Stock Exchanges on November 06, 2023 under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the aforementioned Financial Results is available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and the Company's Website (www.parasdefence.com)
- The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on November 06, 2023. The Statutory Auditors of the Company have carried out a Limited Review of the above results.

For Paras Defence and Space Technologies Limited
Sd/-
Shipra Mahajan
Whole-Time Director
DIN: 01089192

Date: November 06, 2023

HSIIDC Launches No Litigation Policy-2023
For landowners of villages Kasan, Kukrola and Sehrawan in Tehsil Manesar, Distt. Gurugram

Haryana State Industrial & Infrastructure Development Corporation (HSIIDC), invites application under "No Litigation Policy-2023" notified on 28.07.2023 for the landowners in the revenue estates of villages Kasan, Kukrola and Sehrawan in Tehsil Manesar, Distt. Gurugram for the land notified for compulsory acquisition under Section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 on 10.01.2011 and Award of compensation under Section 9 of the Act for which was announced vide Award No. 1, 2 and 3 dated 16.08.2022.

The application under this policy shall be made within six months from the date of this advertisement. The landowner who are desirous to apply for plot allotment under the No litigation policy 2023 are advised to enquire and arrange the following mandatory documents before filing application to the HSIIDC, website: hsiidcsewa.org.in

(1) Parivar Pechan Patra (2) PAN card (3) Bank account No. (4) Email ID (5) Authorization letter in case of company/firm (6) In case of occupied residential house existing prior to 10.01.2011, property ID issued by Municipal Corporation, Manesar.

Interested stakeholders are required to apply only through application form on the website of HSIIDC i.e. hsiidcsewa.org.in within six months.

Last date for submitting application: 6th May 2024

In case of any clarification/ query please contact: Estate Manager, HSIIDC, IMT, NH-8, Opp. Petrol Pump, Sector 1, Manesar, Distt. Gurugram, Contact No. 0124-2291351.

CTP, HOD(IT), HSIIDC, Head Office, C-13-14, Sector-6, Panchkula, Contact No. 0172-2577710

Haryana State Industrial & Infrastructure Development Corporation Limited
Regd. Office: C-13 14, Sector-6, Panchkula, Ph. 0172-2590481-83, E-mail: contactus@hsiidc.org.in, Website: hsiidc.org.in,

POSSESSION NOTICE

EDELWEISS ASSET RECONSTRUCTION COMPANY LTD.
Retail Central & Regd. Office: Edelweiss House, Off CST Road, Kalina, Mumbai 400098
CIN: U67100MH2007PLC174759

Whereas, the Authorized Officer of the Secured Creditor mentioned herein, under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice under Section 13(2) of the said Act, as mentioned below calling upon the borrower(s) to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice. That the Assignor mentioned hereinbelow has assigned the financial assets to Edelweiss Asset Reconstruction Company Limited, acting in its capacity as trustee of various trusts mentioned hereunder (hereinafter referred as "EARC"), pursuant to the assignment under Section 5 of the SARFAESI Act, 2002. EARC has stepped into the shoes of the Assignor and all the rights, title and interests of Assignor along with underlying security interests, guarantees, pledges have been vested in EARC in respect of the financial assistance availed by the Borrower(s) and EARC exercises all its rights as the secured creditor.

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower(s) and the public in general that the undersigned being the Authorized Officer of Edelweiss Asset Reconstruction Company Limited (EARC) has taken possession of the mortgaged property(s) described herein below in exercise of the powers conferred under sub-section (4) of section 13 of the said Act read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on the respective date mentioned against each Loan Account/Mortgaged Property.

Sr. No.	Name of the Assignor	Name of Loan Account / Trust	Borrower Name & Co-Borrower(s) Name	Amount & Date of Demand Notice	Date of Possession	Possession Status
1.	HDB Financial Services Limited	EARC TRUST SC-477	1. Mr. Sumit Singh (Borrower) & 2. Ms. Ekta Kaur (Co-Borrower) & 3. Ms. Kulu Singh (Co-Borrower) & 4. Ms. Ritu Kaur (Co-Borrower)	Rs. 20,93,290/- (Twenty Lakhs Ninety three thousand two hundred ninety three only) on 18-07-2023	02-11-2023	Symbolic Possession
2.	HDB Financial Services Limited	EARC TRUST SC-482	1. Mr. Gurjeet Singh (Borrower) & 2. Mrs. Krandeep Kaur (Co-Borrower)	Rs. 22,20,265.27 (Twenty two lakhs twenty thousand two hundred fifty rupees and twenty seven paise only) & 16-07-2023	02-11-2023	Physical Possession

Description Of The Property: All that piece and parcel of property bearing Plot No. 63, Property Measuring 66 Sq. Yds., Comprising in Khata No.221, 292, Khata No. 343/282, 346/285 as per Jamabandi for the year 2008-2010 (Khata No.342/284, 345/287, as per Jamabandi for the year 2014-2015) Situated at Village Mahal Bagat, H.No. 164, Abadi kuan in New Kurudpur, Tehsil, & District, Ludhiana, Punjab. Bounded by East: Street; 16'5" West: Neighbour; 16'5" North: Pota Matta; 36" South: Neighbour; 36"

Description Of The Property: All that piece and parcel of property bearing Plot No. 63, Property Measuring 66 Sq. Yds., Comprising in Khata No.221, 292, Khata No. 343/282, 346/285 as per Jamabandi for the year 2008-2010 (Khata No.342/284, 345/287, as per Jamabandi for the year 2014-2015) Situated at Village Mahal Bagat, H.No. 164, Abadi kuan in New Kurudpur, Tehsil, & District, Ludhiana, Punjab. Bounded by East: Street; 16'5" West: Neighbour; 16'5" North: Pota Matta; 36" South: Neighbour; 36"

The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of the time available to redeem the secured assets.

The borrower(s) in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Edelweiss Asset Reconstruction Company Limited for the amount mentioned herein along with interest thereon.

Date: 07/11/2023
Authorized Officer
Edelweiss Asset Reconstruction Company Limited

STYLAM INDUSTRIES LIMITED
CIN: L20211CH1991PLC011732
REGD. OFFICE: SCO 14 FLOOR 7 C MADHYA MARG CHANDIGARH -160019
Email: CS@stylam.com, Website: www.stylam.com

Extract of Unaudited Consolidated Financial Results for the Quarter and Half Year ended September 30, 2023
(Rs. in Lakhs)

Sr. No.	Particulars	Quarter ended		Six Months Ended		Rs in Lakhs Year Ended
		30.09.2023	30.09.2022	30.09.2023	30.09.2022	
1	Total Income from Operations	23584.54	24659.68	46205.28	48184.11	95357.72
2	Net Profit/ (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	4328.76	3250.50	7975.76	6011.35	12807.11
3	Net Profit/ (Loss) for the period (before Tax, after Exceptional and/or Extraordinary Items)	4328.76	3250.50	7975.76	6011.35	12807.11
4	Net Profit/ (Loss) for the period (before Tax, after Exceptional and/or Extraordinary Items)	4328.76	3250.50	7975.76	6011.35	12807.11
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	3175.11	2417.37	5953.07	4515.93	9597.74
6	Equity Share Capital	847.40	847.40	847.40	847.40	847.40
7	Earnings Per Share:					
	1) Basic:	18.73	14.26	35.13	26.65	56.63
	2) Diluted:	18.73	14.26	35.13	26.65	56.63

Notes:

- The above results of Stylam Industries Limited, and its subsidiaries were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meetings held on November 06, 2023 respectively.
- The above is an extract of the detailed format of the unaudited Financial Results for the Quarter and Half Year ended on 30th September, 2023 filed with the stock exchange under Regulation 33 of SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited Quarterly and half year ended September 30, 2023 standalone and Consolidated Financial Results are available on the website of the Stock Exchanges (www.bseindia.com) and on the company's website (www.stylam.com)
- Board of Directors have Declared an interim dividend of Rs 2.5 per equity shares at its meeting held on 06 November 2023.
- Information of unaudited Standalone Financial Results of the company is as under:

Sr. No.	Particulars	Quarter ended		Half Year Ended		Rs in Lakhs Year Ended
		30.09.2023	30.09.2022	30.09.2023	30.09.2022	
1	Total Income from operations	23583.14	24658.75	46202.50	48181.99	95352.90
2	Net Profit/ (Loss) for the period (before tax, after exceptional and/or Extraordinary items)	4328.76	3272.13	7973.13	6009.38	12802.68
3	Net Profit/ (Loss) for the period (after Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	3174.28	2420.80	5951.26	4514.46	9594.69

Date: 06th November 2023
Place: Chandigarh

For and on Behalf of Board of Directors
STYLAM INDUSTRIES LIMITED
Sd/- Jagdish Gupta,
Managing Director

Markets, Monday to Saturday

TP SOUTHERN ODISHA DISTRIBUTION LIMITED
(Procurement Department) **TPSODL**

BPR North Star Building,
2nd Floor, Khodasingi, Berhampur, Odisha-760010

NOTICE INVITING TENDER Dt.: 07.11.2023

TP Southern Odisha Distribution Ltd. invites tender from eligible vendors for following:

Sl. No.	Tender Description	NIT Number	EMD (Rs.)	Tender Fee inclusive of GST (Rs.)	Last date and time of Payment of Tender Fee
1	Rate Contract for Hiring of Tower wagon with Operator & Helper for PAN TPSODL.	TPSODL/OT/2023-24/061	50,000	5,000	17.11.2023; 18:00 Hrs.

For detailed tender, please visit Tender Section on TPSODL website <https://www.tpsouthernodisha.com>

STYLAM INDUSTRIES LIMITED
CIN: L20211CH1991PLC011732

REGD. OFFICE: SCO 14 SECTOR 7 MADHYA MARG CHANDIGARH - 160019
Email: cs@stylam.com, web: <https://www.stylam.com>

NOTICE

DECLARATION OF AN INTERIM DIVIDEND AND RECORD DATE

Board of Directors of the Company has its meeting held on Monday, November 6, 2023, declared an interim dividend of Rs.25 per equity shares of Rs 5 each of the company. The Interim Dividend shall be paid to the eligible shareholders on or before Tuesday, December 5, 2023 whose name appear in the Register of Members of the Company or in the records of the Depositories as beneficial owner of the shares as on Friday November 17, 2023, which is the Record Date, fixed for the purpose.

The above information is also available on the website of the company (www.stylam.com) and on the website of the Depositories (www.bseindia.com) and www.nseindia.com and National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com)

For Stylam Industries Limited
Date: 06th November 2023
Place: Chandigarh

Sd/- Sanjeev Kumar Sehgal
Company Secretary & Compliance officer

Indian Overseas Bank
Stressed Assets Management Department
Central Office, 763, Anna Salai, Chennai-600 002

TRANSFER OF NPA LOAN EXPOSURES TO ARCS/ SCBS/ NBFCs/ AIFs/ SFBs THROUGH e-AUCTION UNDER OPEN AUCTION METHOD

Indian Overseas Bank (IOB) invites Expression of Interest from ARCS/ SCBS/ NBFCs/ AIFs/ SFBs for the proposed transfer of Portfolio of MSME NPA Accounts (Book O/s Cr 3 to 10 cr) under Open Auction method on "as is where is" and "as is what is" basis without any recourse to the Bank.

Interested prospective bidders are requested to intimate their willingness to participate in the e-Auction scheduled on 28.11.2023 by way of an "Expression of Interest" through email at sale@arcs.ioibnet.in on or before 14.11.2023.

For further details please visit Bank's website (www.ioib.in) -> click on link TENDERS -> ARC-Cell -> Notification dated 06.11.2023.

IOB reserves the right to cancel or modify the process and amend any terms of the notification at any stage and the same will not necessarily be carried out through advertisement but will be notified directly on the Bank's website.

Place: Chennai
Date: 06.11.2023
General Manager

LIC HOUSING FINANCE LTD.
DSS-71, CUE-2, FIRST FLOOR, DELHI ROAD, HISSAR - 125005, Ph: 01662-247571

POSSESSION NOTICE (For Immovable Property)

Whereas, the undersigned being the Authorized officer of LIC HOUSING FINANCE LTD. under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act (Second) Ordinance, 2002 (CR 3 of 2002) and in exercise of power conferred under section 13(12) read with Rule 9 of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a Demand Notice as briefed under calling upon the borrower(s), as briefed under to repay the amount mentioned in the notice being as briefed under + interest and other charges accrued thereupon within 60 days from the date of receipt of the said notice the borrower(s) / guarantor(s) having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower / guarantor and the public in general that the undersigned has taken **Symbolic Possession** of the property described herein below, in exercise of power conferred on him/her under section 13(4) of the said Ordinance read with Rule 8 of the said Security Interest (Enforcement) Rules, on the dates mentioned against each account.

The borrower(s) / guarantor(s) in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealing with the property will be subject to the charge of LIC HOUSING FINANCE LTD. of an amount as briefed under + interest & other charges accrued thereupon within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Loan No., Name of the Borrower / Owner of the Property	Description of the Property Mortgaged (All that part and parcel of)	Date of Demand Notice	Type & Date of Possession Notice	Amount Outstanding
Loan A/c No. - 312100002199 BORROWER:- SMT. MANISHA DEVI W/O. SH. RAJINDER SINGH CO-BORROWER:- M.R. RAJINDER SINGH S/O SH. LEHANA SINGH Both Resident of #0 No. JF-1, Mini Sectt. B, Bariala Road Aggarwal Colony Srisa (Haryana) GUARANTOR:- SH. MANOHAR LAL S/O CHUNILAL # H. No. 78, Barnala Road Aggarwal Colony, Srisa (Haryana)	All that part and parcel of the equitable mortgage property by deposit of Registered Sale Deed No. 5902 situated Over Murba No. 01, Killa No. 71/22 Min. Kheywat No. 243, Khatoni No. 325, Village Chattergarh Patti, Srisa (Haryana) (as per sale deed) and Ward No. 1, Gali Pear Khana Wali, Near Channan Ki Chakki, Chattergarh Patti, Srisa (as per sale deed) having plot area 100 sq. yds. Bounded - On the North by: Other Property, On the South by: Other Property, On the East by: Common Street, On the West by: Common Street.	21.02.2023	Symbolic 04.11.2023	Rs. 8,60,459.61 as on 21.02.2023 with future interest thereon plus charges and expenses.

Amount outstanding amount as stated above plus further interest accrued and other charges from the date of demand notice.

DATE: 06.11.2023
PLACE: HISSAR

AUTHORISED OFFICER,
LIC HOUSING FINANCE LTD.

LIC HOUSING FINANCE LTD.
SCF 125, 2ND FLOOR, DISTT. SHOPPING COMPLEX, RAMJIT AVENUE, C-BLOCK, AMRITSAR-143001, TEL: 0183-2501995

POSSESSION NOTICE (For Immovable Property)

Whereas, the undersigned being the Authorized officer of LIC HOUSING FINANCE LTD. under Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of power conferred under section 13(12) read with Rule 9 of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a Demand Notice as briefed under calling upon the borrower(s), as briefed under to repay the amount mentioned in the notice being as briefed under + interest and other charges accrued thereupon within 60 days from the date of receipt of the said notice the borrower(s) / guarantor(s) having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken **Symbolic Possession** of the property described herein below, in exercise of power conferred on him/her under section 13(4) of the said act read with Rule 9 of the said Rules, on the dates mentioned against each account.

The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealing with the property will be subject to the charge of LIC HOUSING FINANCE LTD. of an amount as briefed under + interest & other charges accrued thereupon within 60 days from the date of receipt of the said notice.

Loan No., Name of the Borrower / Owner of the Property	Description of the Property Mortgaged (All that part and parcel of)	Date of Demand Notice	Type & Date of Possession Notice	Amount Outstanding
Sh. Lakhwinder Kaur W/o Sh. Surjit Singh (Applicant) and Sh. Surjit Singh S/o Sh. Swaran Singh Owner of the Property:- Sh. Surjit Singh S/o Sh. Swaran Singh	H. No. 14, Kh. No. 46/24/11/11 min. VIII, Kamboo Abadi Green Field, S.P. Wali Gali, Kot Chowk, Khairabad Road, Amritsar - 143001 (Punjab)	11.01.2023 & 21.12.2022	Symbolic 31.10.2023	Rs. 57,67,120.38 (Rupees Fifty Seven Lakh Sixty Seven Thousand One Hundred Twenty and Paise Thirty Eight only)

Amount outstanding amount as stated above plus further interest accrued and other charges from the date of demand notice.

DATE: 06.11.2023
PLACE: AMRITSAR

AUTHORISED OFFICER,
LIC HOUSING FINANCE LTD.

KN AGRI RESOURCES LIMITED
CIN: L15141CT1987PL003977
Regd. Office: KN Building, Panchsheel, Raipur-492001
E-mail: info@knagri.com, Website: www.knagri.com
Phone: +91-771-2293706-08, 4016370

NOTICE OF 36TH ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 36th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Thursday, the 30th day of November, 2023 at 2:30 p.m. at the registered office of the Company at KN Building, Panchsheel, Raipur-492001, Chhattisgarh to transact the business set forth in the notice dated 30th October, 2023. The Company is providing to its members, the facility of remote e-voting to enable them to cast their votes electronically before the AGM, pursuant to Section 108 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015.

Members are hereby informed that:

- The notice convening the AGM along with the weblink of the Annual Report for the Financial year 2022-23 has been sent through electronic mode to the members on Monday, 06th November, 2023. The same is also available on the website of the company www.knagri.com.
- The cut-off date for the purpose of ascertaining eligibility of members, to avail remote e-voting facility / voting at the general meeting is Wednesday, 22nd November, 2023. The members holding shares as on the cut-off date shall only be entitled to avail the remote e-voting facility provided by the NSDL. 3. The Remote e-voting period will commence on Monday, 27th November, 2023 at 09:00 a.m. and end on Wednesday, 29th November, 2023 at 05:00 p.m. The remote e-voting module will be disabled thereafter by NSDL. Once the vote on resolution is cast by a member, no change will be allowed subsequently. The detailed procedure/instruction for the process of remote e-voting has been specified in the notice. 4. A member may participate in the general meeting even after exercising his voting right through remote e-voting, but shall not be allowed to vote again at the meeting. 5. A person who acquires shares and becomes member of the Company after the dispatch of the notice and holding shares as on the cut-off date i.e. Wednesday, 22nd November, 2023 may obtain the Login ID and password by sending the request at evoting@nsdl.co.in or may contact at toll free number provided by NSDL: 1800-222-990. 6. NSDL Helpdesk: Members holding shares in Demat mode with NSDL, and facing any technical issue related to Login may send their request at evoting@nsdl.co.in or may call at the Toll free no. 1800-1020-990 / 1800-224-430. 7. CDRL Helpdesk: Members holding shares in Demat mode with CDRL, and facing any technical issue related to Login may send their request at evoting@cdslindia.in or may contact at 022-23058738 / 022-2305842.

Members are requested to carefully read the detailed instructions set out in the Notice of AGM, indicating the manner of casting vote through remote e-voting / voting at the AGM.

For KN Agri Resources Limited
Sd/- Divendra Shrivastava
Place: Raipur
Date: 07.11.2023
Whole-time Director & CFO (DIN: 00324169)

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड
CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD.
(एन एम ईएस एल एल एल) (An Navratna Undertaking of Govt. of India)

NOTICE INVITING E-TENDER

CONCOR invites E-Tender in SPP format for the following work:-

Tender No.	CONVEYANCE/SSP Works/2023
1	Supply, Installation, Testing & Commissioning of SSP work at MMLP Jajpur Odisha

Estimated Cost: Rs. 96.58 Lakhs
Completion Period: 03 Months from the 15th day after date of issue of Letter of Acceptance
Earnest Money Deposit: Rs. 1,93,132/- (through e-payment)
Cost of Tender Document: Rs. 4,000/- Plus GST as applicable (through e-payment)
Tender Processing Fee (Non-refundable): Rs. 4,000/- Plus GST as applicable (through e-payment)
Date of Sale of Tender (online): 07.11.2023 (11:00 hrs.) to 21.11.2023 (upto 17:00 hrs.)
Date & Time of submission of Tender: 23.11.2023 (upto 17:00 hrs.)
Date & Time of Opening of Tender: 23.11.2023 at 11:30 hrs.

For financial eligibility criteria, experience with respect to similar nature of work, etc. please refer to detailed tender notice available on website www.concorindia.com, but the complete tender document can be downloaded from website www.tendersindia.com/CCL only. Further, Contingendum/Addonendum to this tender, if any, will be published on website www.concorindia.co.in, www.tendersindia.com/CCL and Central Procurement Portal (CPP) only. Newspaper news advertisement shall not be issued for the same. Group General Manager (P&S-Civil)

Government of Kerala
Published Tenders from 02-11-2023 to 05-11-2023

Directorate of Animal Husbandry

Tender ID: 2023 DAH 618376 1 * Director * Purchase of Chemicals in IA/HVB, Palode * Closing Date: 28-Nov-2023 * PAC: Rs947106

Directorate of Technical Education

Tender ID: 2023 DTE 618687 1 * Principal * Purchase and Installation of W/Ft 6 access point at Central * Closing Date: 28-Nov-2023 * PAC: Rs1320000

Visit <https://etenders.kerala.gov.in> for more details.

Ro.No:02/05/Nov/2023/PRD(N)10

TENDER CARE — Advertisorial

IFCL CONFERENCE IN LONDON ON 'INVESTMENT OPPORTUNITIES BETWEEN INDIA AND UNITED KINGDOM', IN THE PRESENCE OF CHIEF GUEST DR. VIVEK JOSHI, SECRETARY, DFS, MINISTRY OF FINANCE, GOI.

India Infrastructure Finance Company Limited (IFCL) organized a 'Conference on Investment Opportunities Between India and United Kingdom' on 30th October 2023 at London, UK. Sh. P.R. Jaishankar, MD, IFCL welcomed Chief Guest Dr. Vivek Joshi, Secretary, Department of Financial Services, Government of India and other dignitaries. The conference saw participation of senior officials from IFCL, India Exim Bank, NHA, Indian High Commission, GMR International, ReNew Power, Grant Thornton, OneWeb, UK Council, HSBC, JP Morgan, Macquarie, Deloitte, GIIP and other FIs, Banks and Fund Houses, etc.

The objective of the conference was to explore and deliberate on promoting cooperation between India and UK and explore potential avenues of investment in India's rapidly growing infrastructure sector. Sh. P.R. Jaishankar in his inaugural address apprised the delegates about the pivotal role played by IFCL in driving the GOI's goals for a robust all-round infrastructure development in the country covering all sub-sectors including Road, Railways, Energy (including Renewable Energy), Ports, Airports, etc. He also highlighted on how the various innovative products of IFCL such as Credit Enhancement, Takeover Finance, InvTIs, Project Bonds have proven to be a game changer for the sector. He also talked about the need for very long-term financing, continuous efforts towards sustainability, active participation of private-sector investors, etc. in infrastructure sector in India.

Dr. Vivek Joshi in his keynote address informed the delegates about the remarkable growth witnessed by India's infrastructure sector during the last decade and on the enormous potential of the sector in the years to come, facilitated by Government of India's visionary and flagship initiatives like the National Infrastructure Pipeline, Gati Shakti, Sagarmala, Bharatmala, UDAN, Maritime India Vision 2030, etc.

BANK OF BARODA INAUGURATES ITS 54 BRANCH AT GAUR CHOWK IN NOIDA REGION

The Bank of Baroda on 6th November, 2023 inaugurated its 54th branch at Gaur Chowk in the Noida Region. The honorable Executive Director, Shri AK Narayan, graced the occasion with his presence and officially opened the new branch.

The event was attended by several dignitaries, including Zonal Head and General Manager, New Delhi Zone, Shri Rakesh Sharma, Network DGM Shri Atul Kumar Karn, Deputy Zonal Head Bhavani Shankar Gupta, Regional Head of Noida region, Shri Shalesh Kumar, Dy. Regional Manager Mr. Kaushtalendra Kumar, Director of The Gaur Groups Shri Manoj Gaur, and others. During the ceremony, Zonal Head Mr. Rakesh Sharma expressed his gratitude to the customers for their trust in Bank of Baroda and assured them of prompt and excellent banking services. He also greeted all the customers and thanked them for their presence.

After the inauguration ceremony, a customer meet was organized for MSME customers. A large number of MSME customers and other customers attended the presentation, where the bank informed them about all the MSME products available.

Overall, it was a successful event that showcased Bank of Baroda's commitment to providing exceptional banking services to its customers.

GAIL CLOCKS REVENUE OF RS 31,823 CRORE, PAT OF RS 2,405 CRORE IN Q2 FY24

GAIL (India) Limited reported Revenue from Operations of Rs 64,050 crores for the period April – September 2023 as compared to Rs 76,063 crores in corresponding period of Financial Year 2022-23. Profit before Tax (PBT) for H1 FY24 stood at Rs 5,019 crores as compared to Rs 5,770 crores for the corresponding period in previous year. Profit after Tax (PAT) stood at Rs 3,817 crores as compared to Rs 4,452 crores in corresponding period of previous year.

Quarter on Quarter basis, Revenue from Operations reported is Rs 31,823 crores in Q2 FY24 as compared to Rs 32,227 crores in Q2 FY23. PBT registered a jump of 66% to Rs 3,130 crores in Q2 FY24 as against Rs 1,889 crores in previous quarter and PAT followed the way with an increase of 70% to Rs 2,405 crore in Q2 FY24 as against Rs 1,412 crore in previous quarter. During the quarter, Natural Gas transmission volume stood at 120.31 MMSCMD in Q2 FY24 as against 116.33 MMSCMD in Q1 FY24. Gas marketing volume stood at 96.96 MMSCMD as against 98.84 MMSCMD in previous quarter. LHC sales stood at 242 TMT as against 247 TMT and Polymer sales stood at 168 TMT as against 162 TMT in comparison to previous quarter. Shri. Sandeep Kumar Gupta, Chairman & Managing Director, GAIL said that during the quarter the company has performed well specially on the strength in Gas Transmission segment which will continue to perform better. He said performance during the quarter was constrained due to lower realisation in Polymers and LPG which are expected to be better going forward.

IREDA DIGITISES CSR INITIATIVES WITH LAUNCH OF NEW PORTAL

Indian Renewable Energy Development Agency Limited (IREDA) launched a Corporate Social Responsibility (CSR) portal yesterday for enhancing the transparency in its CSR initiatives through digitization. The launch took place at the Vaidehyatri Function of "Vigilance Awareness Week 2023" at the company's registered office. Dr. Praveen Kumar Singh, Additional Secretary of Central Vigilance Commission (CVC), launched the CSR portal in the august presence of Shri Pradip Kumar Des, Chairman and Managing Director (CMD) of IREDA, Shri Ajay Kumar Sahani, Chief Vigilance Officers, and other senior officials.

This newly launched CSR portal will facilitate the transparency in receipt and disposal of CSR requests from various organizations and institutions. It will be accessible 24 x 7 to all with a CSR policy and proposal checklist for examination. This portal will also contribute to the more efficient execution of IREDA's social welfare initiatives as part of its CSR efforts, making them readily available to the public. Developed by IREDA's IT team, the portal can be easily accessed through the link on the IREDA website: <https://www.ireda.in>.

CMD, IREDA expressed unwavering commitment of the company to advancing renewable energy and Corporate Social Responsibility while upholding the values of transparency and ethics.

GLAND PHARMA LIMITED
Corporate Identity Number: L24239TG1978PLC002276
Registered Office: Sy. No. 143 - 148, 150 and 151, Near Gandhi Maisamma 'X' Roads, D.P. Pally, Dundigal District - Gandi Maisamma (M), Medchal-Malkajgiri District, Hyderabad 500 043, Telangana, India
Tel: +91 84556 99999; Website: www.glandpharma.com; E-mail: investors@glandpharma.com

EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2023
(₹ in million)

Particulars	Quarter Ended			Half Year Ended			Year Ended
	30-Sep-23	30-Jun-23	30-Sep-22	30-Sep-23	30-Sep-22	31-Mar-23	Year Ended
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Audited
Revenue from operations	13,734.24	12,086.93	10,444.04	25,821.17	19,013.02	36,246.01	
Profit before tax	2,898.88	2,612.66	3,240.82	5,511.54	6,325.81	10,545.82	
Profit for the period / year	1,940.82	1,941.02	2,412.42	3,881.84	4,704.11	7,810.43	
Total comprehensive income	1,784.70	1,694.57	2,431.56	3,479.27	4,725.19	7,796.05	
Paid up equity share capital (Face value of ₹/- each)	164.70	164.70	164.69	164.70	164.70	164.70	
Other equity						79,422.52	
Earnings per equity share (Face value of ₹/- each)							
(Not annualised for the quarter and half year ended)							
Basic (₹)	11.78	11.79	14.65	23.57	28.58	47.44	
Diluted (₹)	11.78	11.78	14.65	23.56	28.57	47.43	

Additional information on Standalone Financial Results is as follows:





Particulars	Quarter Ended			Half Year Ended			Year Ended
	30-Sep-23	30-Jun-23	30-Sep-22	30-Sep-23	30-Sep-22	31-Mar-23	Year Ended
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Audited
Revenue from operations	10,106.67	8,840.70	10,483.09	18,947.37	19,052.07	36,165.28	
Profit before tax	3,470.63	2,539.91	3,224.70	6,010.54	6,312.54	10,484.02	
Profit for the period/year	2,575.27	1,875.82	2,396.50	4,451.09	4,690.84	7,758.26	

Notes

- The Unaudited Consolidated Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2023 ("Unaudited Consolidated Financial Results") of the Company has been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on November 6, 2023.
- The above is an extract of the detailed format of quarter and half year ended Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Financial Results are available on the Company's website (www.glandpharma.com) and on the website of the National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and BSE Limited (www.bseindia.com).

For and on behalf of the Board
Gland Pharma Limited
Sd/-
Srinivas Sadu
Managing Director and CEO
DIN No. 06900659

Hyderabad
November 6, 2023



संक्षेप में

सेलो वर्ल्ड का शेयर पहले दिन 22 प्रतिशत चढ़ा

सेलो वर्ल्ड का शेयर सोमवार को पहले दिन के कारोबार में 20 प्रतिशत से ज्यादा चढ़ा था। कंपनी के शेयर ने 835 रुपये का उंचा और 782 रुपये का निचला स्तर छुआ और आखिर में 144 रुपये या 22 प्रतिशत की तजी (648 रुपये के निर्माण भाव के मुकाबले) के साथ 792 रुपये पर बंद हुआ। कंपनी के आईपीओ को शानदार प्रतिक्रिया मिली। इस आड़पीओ को पेश किए गए शेयरों की तुलना में 35 गुना ज्यादा भाग रज की गई। मुंबई की कंपनी सेलो वर्ल्ड कंजुमर हाउसवेयर, रेडेशनरी सामान और माॅड्यूलर फर्निचर की निर्माता है।

मैन इंडस्ट्रीज को 380 करोड़ रुपये के नए ऑर्डर

मैन इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड को 380 करोड़ रुपये के नए ठेके मिले हैं। कंपनी ने सोमवार को बयान में कहा कि इसके साथ उसकी मौजूदा ऑर्डर बुक 1,400 करोड़ रुपये पर पहुंच गई है। नए ठेके मिलने की खबर के बाद बीएसई पर दिन में कारोबार के दौरान कंपनी का शेयर भी 22 प्रतिशत से अधिक के उछाल के साथ 52 साप्ताहिक उच्चतर 256.80 रुपये पर पहुंच गया।

वाहनों की खुदरा बिक्री घटी

देश में वाहनों की खुदरा बिक्री में अक्टूबर के दौरान पिछले साल की समान अवधि की तुलना में आठ प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। दोपहिया और यात्री वाहन दोनों में क्रमशः 13 प्रतिशत और 1.4 प्रतिशत तक की गिरावट के बाद ऐसा हुआ है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) के आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। हालांकि नवरात्रों के दौरान (15 से 24 अक्टूबर) इस क्षेत्र में रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की, जिसमें 18 प्रतिशत का इजाफा हुआ है।



वाहन	अक्टूबर 2022	अक्टूबर 2023	% बदलाव
दोपहिया	17,25,043	15,07,756	-12.6
तिपहिया	71,903	1,04,711	45.63
कार	3,58,884	3,53,990	-1.36
ट्रैक्टर	58,823	62,440	6.15
वाणिज्यिक वाहन	80,446	88,699	10.26
कुल	22,95,099	21,17,596	-7.73

फाडा के अनुसार इस दौरान कुल बिक्री 21.17 लाख वाहन रही, जबकि अक्टूबर 2022 के दौरान वाहन बिक्री 22.95 लाख। दूसरी गुरा इतम अवधि के दौरान तिपहिया वाहनों की बिक्री में 46 प्रतिशत, वाणिज्यिक वाहनों में 10.3 प्रतिशत और ट्रैक्टरों में 6.2 प्रतिशत तक का इजाफा खाया गया है। फाडा के अध्यक्ष मनीष राव सिंघानिया ने कहा कि यह महाना श्राद्धों के साथ में हुआ, जो 14 अक्टूबर तक जारी रहा।

सालाना आधार पर भारतीय वाहनों की खुदरा बिक्री दोनों में वृद्धि का वास्तविक रकना शानदार संकेत दे रहा है न दे पाए। पिछले साल अक्टूबर में नवरात्र और दशहरा दोनों की त्योहार थी।

श्राद्ध के दौरान वाहन बिक्री घटी लेकिन नवरात्र में बढ़ी

- इस साल नवरात्र अवधि रही महत्वपूर्ण, पिछले साल की तुलना में बिक्री 18 प्रतिशत तक बढ़ी

क्रमशः 22 प्रतिशत, 43 प्रतिशत, नौ प्रतिशत और सात प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। सिंघानिया ने कहा नवरात्र अवधि और पूरे अक्टूबर के दौरान दोपहिया श्रेणी में कई सकारात्मक रकना देखे गए।

मैन इंडस्ट्रीज को 380 करोड़ रुपये के नए ठेके मिले हैं। कंपनी ने सोमवार को बयान में कहा कि इसके साथ उसकी मौजूदा ऑर्डर बुक 1,400 करोड़ रुपये पर पहुंच गई है। नए ठेके मिलने की खबर के बाद बीएसई पर दिन में कारोबार के दौरान कंपनी का शेयर भी 22 प्रतिशत से अधिक के उछाल के साथ 52 साप्ताहिक उच्चतर 256.80 रुपये पर पहुंच गया।

नायिका का मुनाफा 70 फीसदी बढ़ा

ब्यूटी और फैशन ब्रांड नायिका की मूल कंपनी एफएसएम चैम्स का मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में शुद्ध लाभ 70 फीसदी बढ़कर 7.8 करोड़ रुपये हो गया। पिछले साल की इसी अवधि के दौरान कंपनी का मुनाफा 5.2 करोड़ रुपये था। वित्त वर्ष 2024 को पहली तिमाही में कंपनी ने 5.4 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया था। मौजूदा वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में कंपनी का परिचालन समतुल्य राजस्व भी पिछले साल की दूसरी तिमाही की 1,230.8 करोड़ रुपये से 22 फीसदी बढ़कर 1,507 करोड़ रुपये हो गया। यह पिछली तिमाही में 1,421.8 करोड़ रुपये था।

पीई संग बातचीत कर रहा एसपी समूह

देव चर्ची मुंबई, 6 नवंबर

बंदरगाह और अन्य संयंत्र बिक्री की तैयारी

श्रम में 1,035 करोड़ रुपये का अन्य भूतान

श्रम में 1,035 करोड़ रुपये का अन्य भूतान

श्रम में 1,035 करोड़ रुपये का अन्य भूतान

मैक्स हेल्थकेयर का शुद्ध लाभ 26.59 प्रतिशत बढ़ा

मैक्स हेल्थकेयर इंस्ट्रुमेंट लिमिटेड का 30 सितंबर, 2023 को समाप्त दूसरी तिमाही का शुद्ध लाभ 26.59 प्रतिशत बढ़कर 338 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी ने सोमवार को बयान यह जानकारी दी है। इससे पिछले वित्त वर्ष की समाप्त तिमाही में कंपनी का शुद्ध लाभ 26.7 करोड़ रुपये रहा था। बयान में कहा गया कि जुलाई-सितंबर, 2023 तिमाही में मैक्स हेल्थकेयर का कुल राजस्व 1,827 करोड़ रुपये रहा।

श्रापूजी पल्लोंजी (एसपी) समूह ने अगले साल की शुरुआत तक ओडिशा के गोपालपुर पोर्ट में अपनी पूरी हिस्सेदारी और बुनियादी ढांचा विकास फर्म एफकॉनस इन्फ्रास्ट्रक्चर में अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचने के लिए निजी इक्विटी (पीई) के साथ बातचीत शुरू कर दी है।

अगले साल की शुरुआत तक गोपालपुर बंदरगाह में पूरी हिस्सेदारी और एफकॉनस इन्फ्रास्ट्रक्चर में कुछ हिस्सेदारी बेचने के लिए दो पीई बातचीत

जेएसडब्ल्यू पोर्ट्स और अदाणी समूह ने बंदरगाह अधिग्रहण का अधिग्रहण करने के लिए लगभग 3,000 करोड़ रुपये की पेशकाश की थी, जो समूह की मूल्यांकन आंशकों के अनुसरण नहीं थी। इसके बाद निजी इक्विटी और अन्य निवेशकों के साथ बातचीत शुरू की गई है।

जेएसडब्ल्यू पोर्ट्स और अदाणी समूह ने बंदरगाह अधिग्रहण का अधिग्रहण करने के लिए लगभग 3,000 करोड़ रुपये की पेशकाश की थी, जो समूह की मूल्यांकन आंशकों के अनुसरण नहीं थी। इसके बाद निजी इक्विटी और अन्य निवेशकों के साथ बातचीत शुरू की गई है।

जेएसडब्ल्यू पोर्ट्स और अदाणी समूह ने बंदरगाह अधिग्रहण का अधिग्रहण करने के लिए लगभग 3,000 करोड़ रुपये की पेशकाश की थी, जो समूह की मूल्यांकन आंशकों के अनुसरण नहीं थी। इसके बाद निजी इक्विटी और अन्य निवेशकों के साथ बातचीत शुरू की गई है।

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड
CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD.

इ-निविदा आमंत्रण सूचना
निविदा नंबर: CN/एचआर/एचआर/एसएस/एचआर/2023

निविदा शुरू की तिथि: 23.11.2023 11:30 बजे

निविदा बंद की तिथि: 23.11.2023 11:30 बजे

एनएचपीसी लिमिटेड
(प्रायतः सरकारी का उपनि)

निविदा नंबर: 2023_NHPC_778283_1

निविदा शुरू की तिथि: 31.10.2023

निविदा बंद की तिथि: 31.10.2023 11:30 बजे

स्टाइलम इंडस्ट्रीज लिमिटेड
CIN: L2011GH1991PLC011732

पंजीकृत कार्यालय: एएससीओ 14 सेक्टर 7 सी मदन मार्ग चंडीगढ़-160019

ईमेल: cs@stylam.com, वेबसाइट: https://www.stylam.com

स्टाइलम इंडस्ट्रीज लिमिटेड
CIN: L2011GH1991PLC011732

पंजीकृत कार्यालय: एएससीओ 14 सेक्टर 7 सी मदन मार्ग चंडीगढ़-160019

ईमेल: cs@stylam.com, वेबसाइट: https://www.stylam.com

एनएचपीसी लिमिटेड
(प्रायतः सरकारी का उपनि)

निविदा नंबर: 2023_NHPC_778283_1

निविदा शुरू की तिथि: 31.10.2023

निविदा बंद की तिथि: 31.10.2023 11:30 बजे

क्र. सं.	विवरण	30.09.2023	30.09.2022	30.09.2023	30.09.2022	र. लाख में 31.03.2023
1	परिचालन से आया कुल अंश	235884.54	248589.68	46205.28	48184.11	95357.72
2	अंशों के लिए निवल लाभ (अंशों) (जर. निशित/व्याज/अवसरगत मती के उपरांत)	4328.76	3250.50	7975.76	6011.35	12807.11
3	अंशों के लिए निवल लाभ (अंशों) (जर. पूर, निशित/व्याज/अवसरगत मती के उपरांत)	4328.76	3250.50	7975.76	6011.35	12807.11
4	अंशों के लिए निवल लाभ (अंशों) (जर. पूर, निशित/व्याज/अवसरगत मती के उपरांत)	4328.76	3250.50	7975.76	6011.35	12807.11
5	अंशों के लिए निवल लाभ (अंशों) (जर. पूर, निशित/व्याज/अवसरगत मती के उपरांत)	4328.76	3250.50	7975.76	6011.35	12807.11
6	अंशों के लिए निवल लाभ (अंशों) (जर. पूर, निशित/व्याज/अवसरगत मती के उपरांत)	4328.76	3250.50	7975.76	6011.35	12807.11
7	अंशों के लिए निवल लाभ (अंशों) (जर. पूर, निशित/व्याज/अवसरगत मती के उपरांत)	4328.76	3250.50	7975.76	6011.35	12807.11

आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड
आधार कार्यालय: एएससीओ 14 सेक्टर 7 सी मदन मार्ग चंडीगढ़-160019

ईमेल: cs@stylam.com, वेबसाइट: https://www.stylam.com

IDBI BANK

निविदा सूचना

रोज. पता: आईडीबीआई टॉवर, बंगलादौली कॉम्प्लेक्स, कंक पर्व, मुंबई-400005

वेबसाइट: www.idbibanke.in | सीआईएन: L65190M2004G0148838

कारोबार उत्पन्न/प्राप्ति एम/स्थिरता रिपोर्ट (बीआरएसआर) के लिए सहायकार की नियुक्ति

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड वित्त वर्ष 2023-24 हेतु अपना कारोबार उत्पन्न/प्राप्ति एम रिपोर्टिंग प्रदाता (बीआरएसआर) सेवा करने के लिए प्रतियोगिता सलाहकार के मुहताब निविदा आमंत्रित करता है। कृपया प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरपीएफ) प्राप्त करने तथा आमदना नाम करने के प्रारूप हेतु बैंक की वेबसाइट (www.idbibanke.in) पर जाएं। सूचना बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे इसमें दिए निर्देशों के अनुसार बोलिया जानें।

आरपीएफ में किसी भी निविदा परिशिष्ट सहित कोई भी संशोधन/आशोधन परिवर्तन केवल बैंक की वेबसाइट पर अधिलेखित किया जाएगा।

दिनांक: नवंबर 07, 2023

स्थान: मुंबई

क्र. सं.	विवरण	30.09.2023	30.09.2022	30.09.2023	30.09.2022	र. लाख में 31.03.2023
1	परिचालन से आया कुल अंश	23588.14	24858.68	4620.52	4818.41	9535.72
2	अंशों के लिए निवल लाभ (अंशों) (जर. पूर, निशित/व्याज/अवसरगत मती के उपरांत)	432.87	325.05	797.57	601.13	1280.71
3	अंशों के लिए निवल लाभ (अंशों) (जर. पूर, निशित/व्याज/अवसरगत मती के उपरांत)	432.87	325.05	797.57	601.13	1280.71
4	अंशों के लिए निवल लाभ (अंशों) (जर. पूर, निशित/व्याज/अवसरगत मती के उपरांत)	432.87	325.05	797.57	601.13	1280.71
5	अंशों के लिए निवल लाभ (अंशों) (जर. पूर, निशित/व्याज/अवसरगत मती के उपरांत)	432.87	325.05	797.57	601.13	1280.71
6	अंशों के लिए निवल लाभ (अंशों) (जर. पूर, निशित/व्याज/अवसरगत मती के उपरांत)	432.87	325.05	797.57	601.13	1280.71
7	अंशों के लिए निवल लाभ (अंशों) (जर. पूर, निशित/व्याज/अवसरगत मती के उपरांत)	432.87	325.05	797.57	601.13	1280.71

Aadhar Housing Finance Ltd.

आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड

आधार कार्यालय: एएससीओ 14 सेक्टर 7 सी मदन मार्ग चंडीगढ़-160019

ईमेल: cs@stylam.com, वेबसाइट: https://www.stylam.com

